

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जून में, कोविड-19 के दौरान अपने विविध समुदाय का जश्न मनाना जारी रखेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 जून, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ऑनलाइन हेरिटेज मंथ्स का जश्न मनाकर कोविड-19 (COVID-19) के प्रभावों को अनुकूल बना रही है। इनमें शामिल हैं, जून के हेरिटेज मंथ्स (Heritage Months) और 21 जून को नैशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे (National Indigenous People's Day)।

जून हेरिटेज मंथ

जून में ब्रैम्पटन, फिलीपीनो हेरिटेज मंथ (Filipino Heritage Month), इटैलियन हेरिटेज मंथ (Italian Heritage Month) और पुर्तगीज हेरिटेज मंथ (Portuguese Heritage Month) मनाता है। इस साल, मेयर पैट्रिक ब्राउन और काउंसलर, खास वीडियो संदेशों के साथ, इन समुदायों में से प्रत्येक का सम्मान करेंगे। वीडियो पूरा महीना, सिटी के [यूट्यूब \(YouTube\)](#) और सोशल मीडिया चैनलों पर उपलब्ध होंगे।

2019 में, सिटी ने ब्रैम्पटन की विविधता का सम्मान करने के लिए, सामुदायिक पहचान प्रोग्राम (Community Recognition Program) शुरू किया था। चूंकि इस साल व्यक्तिगत जश्न संभव नहीं हैं, इसलिए सिटी हर किसी को सलाह देती है कि वे ब्रैम्पटन के मोज़ैक (Brampton's Mosaic) समुदाय का जश्न मनाएं और उसके बारे में जानने के इस अवसर का लाभ उठाएं।

ऑनलाइन – नैशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे मनाएं!

21 जून को, ब्रैम्पटन के नैशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे के ऑनलाइन जश्नों से जुड़ें। आप बच्चों की गतिविधियों, पारंपरिक व्यंजन पकाने में हिस्सा ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। इनमें शामिल हैं: शुरुआत में प्रार्थना, मेयर ब्राउन द्वारा संदेश, इंडीजीन्स विद्वान, जेसी थिसल (Jesse Thistle) द्वारा प्रस्तुति, पारंपरिक प्रदर्शन, ट्विन फ्लेम्स (Twin Flames) बैंड द्वारा संगीत और जश्न की अंतिम प्रार्थना। यह डिजिटल कार्यक्रम, द इंडीजीन्स नेटवर्क (The Indigenous Network) के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है।

जश्न, ऑनलाइन www.brampton.ca/NIPD पर उपलब्ध होगा।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और पील प्राइड (Peel Pride), जुलाई में प्राइड (Pride) को सम्मानित करेंगे। इस जश्न के विवरण, आने वाले सप्ताहों में रिलीज किए जाएंगे।

हवाले

“मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि अन्य संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और कई समुदायों को जानें, जिनसे हमारा विविध शहर बनता है। हालांकि हम इस साल व्यक्तिगत जश्नों का आयोजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले जश्नों के साथ, ब्रैम्पटन की विविधता देखें और शारीरिक दूरी कायम रखने को सुनिश्चित करें!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन समझती है कि हमारी विविधता, हमारी सबसे बड़ी ताकतों में एक है। सिटी के तौर पर, हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम में लोगों का पहले ध्यान रखा जाता है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि हम लगातार विविध मोज़ैक को शामिल और उसका सहयोग करते हैं, जिससे हमारा समुदाय बनता है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca